



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 15 जून, 2019 / 25 ज्येष्ठ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग-ख

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2019

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-1/2018 (मण्डी).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला मण्डी में एक नई उप-तहसील मकरीडी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तम्भ संख्या 6 में विनिर्दिष्ट बारह पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील मकरीड़ी, जिसका मुख्यालय मकरीड़ी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

उप-तहसील का नाम	उप-मण्डल का नाम	तहसील का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित किए गए पटवार वृत्त	तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए
1	2	3	4	5	6	7
मकरीड़ी	जोगिन्दरनगर	जोगिन्दरनगर	मण्डी	मकरीड़ी	1. मकरीड़ी	जोगिन्दरनगर
					2. पिपली	
					3. हियूण	
					4. चड़ौझ	
					5. चिम्हणू	
					6. लांगणा	
					7. डोल	
					8. बसाही	
					9. त्रैम्बली	
					10. खड़ीहार	
					11. हाड़ी द्राहल	
					12. कुठहेड़ा	

उप-तहसील मकरीड़ी के सृजन के उपरान्त तहसील जोगिन्दरनगर की संरचना निम्न प्रकार से होगी:-

तहसील का नाम	उप-मण्डल का नाम	जिला	पटवार वृत्तों के नाम
1	2	3	4
जोगिन्दरनगर	जोगिन्दरनगर	मण्डी	1. मटरू
			2. ऐहेजू
			3. सुकाबाग
			4. पसल
			5. टिकरीमुशैहरा
			6. राजा
			7. उपरला मरहोला

1	2	3	4
			8. भड़याड़ा
			9. टिकरू
			10. ढेलू
			11. चौन्तड़ा
			12. पडैन
			13. दुल
			14. जोगिन्दरनगर
			15. गलू
			16. रोपा पधर
			17. गुम्मा
			18. हराबाग
			19. नौहली
			20. भराडू
			21. रणारोपा
			22. अन्द्राहलू
			23. बनारू
			24. सपैडू
			25. बल्ह
			26. जीतपुर
			27. खुद्वर
			28. बस्सी
			29. कस
			30. बडौण

आदेश द्वारा,
बी०के० अग्रवाल,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-1/2018 (Mandi) dated 04-06-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2019

No. GAD-B-(A)-1-1/2018 (Mandi).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to do so that a new **Sub-Tehsil Makreri** in District Mandi may be created, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to **create a new Sub-Tehsil Makreri** with its headquarter at **Makreri** in District Mandi, Himachal Pradesh consisting of twelve Patwar Circles specified in Column No. 6th below, with immediate effect:—

Name of the Sub-Tehsil 1	Name of Sub-Division 2	Name of Tehsil 3	District 4	Head-quarter 5	Patwar Circles Included 6	Name of Tehsil from where excluded 7
Makreri	Jogindernagar	Jogindernagar	Mandi	Makreri	1. Makreri	Jogindernagar
					2. Pipli	
					3. Hiyuh	
					4. Chadonjh	
					5. Chimhnu	
					6. Langna	
					7. Dol	
					8. Basahi	
					9. Trambli	
					10. Kharihar	
					11. Hari Drahal	
					12. Kuthehra	

The composition of **Tehsil Jogindernagar** after creation of Sub-Tehsil Makreri will be as under:—

Name of Tehsil 1	Name of Sub-Division 2	District 3	Name of Patwar Circles 4
Jogindernagar	Jogindernagar	Mandi	1. Matroo
			2. Ahju
			3. Sukabag
			4. Pasal
			5. Tikrimushehra
			6. Raja
			7. Uparla Marhola
			8. Bhadyara
			9. Tikru

1	2	3	4
			10. Dhelu
			11. Chauntra
			12. Padain
			13. Dul
			14. Jogindernagar
			15. Galu
			16. Ropa Padhar
			17. Gumma
			18. Harabag
			19. Nauhli
			20. Bhraru
			21. Ranaropa
			22. Andrahlh
			23. Banaru
			24. Speru
			25. Balh
			26. Jeetpur
			27. Khudar
			28. Bassi
			29. Kas
			30. Badon

By order,
B. K. AGARWAL,
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जून, 2019

संख्या जी.ए.डी.-सी(ए)3-1/2017.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 13-2/71-जी.ए.डी तारीख 27 मार्च, 1974 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 27 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित, दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट

(रैक्लूटमेंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) रूलज, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रैक्लूटमेंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट रूलज, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **फर्स्ट शैड्यूल का संशोधन.**—दी हिमाचल प्रदेश विधान सभा सैक्रेटेरिएट (रैक्लूटमेंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) रूलज, 1974 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) से संलग्न फर्स्ट शैड्यूल में क्रम संख्या 18 के सामने की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"18.A. Law Officer ₹ 10300-34800+ ₹ 4400 G.P. 1."

3. **सैकेन्ड शैड्यूल का संशोधन.**—(1) उक्त नियमों से संलग्न सैकण्ड शैड्यूल में, क्रम संख्या 14 के सामने की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों सहित निम्नलिखित नई क्रम 14-A अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"14-A Law officer Selection (₹ 10300-34800 + 4400 GP)	100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as per Annexure attached to the SECOND SCHEDULE.	N.A.	<p>(a) Essential Qualification:</p> <p>(1) Professional Degree in Law from a recognised University;</p> <p>(2) At least 3 years experience as practising Advocate.</p> <p>(b) Desirable Qualifications: Knowledge of customs and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."</p>
---	--	------	---

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-C(A)3-1/2017 dated 14-06-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th June, 2019

No. GAD-C(A)3-1/2017.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is pleased to make the following rules further to amend the

Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974, notified *vide* Department notification No. 13-2/71-GAD, dated 27th March, 1974 and published in, Himachal Pradesh, Rajpatra dated 27th April, 1974, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) First Amendment Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of THE FIRST SCHEDULE.—In the FIRST SCHEDULE appended to the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1974 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after the entries against serial number 18, the following new serial number 18-A with the following entries shall be inserted, namely:—

“18.A. Law Officer ₹ 10300–34800+ ₹ 4400 G.P. 1.”

3. Amendment of THE SECOND SCHEDULE.—In THE SECOND SCHEDULE appended to the said rules, after the entries against serial number 14, the following new serial number 14-A with the following entries shall be inserted, namely:—

<p>"14-A Law officer Selection (₹ 10300-34800 + 4400 GP)</p>	<p>100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as per Annexure attached to the SECOND SCHEDULE.</p>	<p>N.A. (a) Essential Qualification: (1) Professional Degree in Law from a recognised University; (2) At least 3 years experience as practising Advocate. (b) Desirable Qualifications: Knowledge of customs and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."</p>
--	---	---

By order,

Sd/-
Chief Secretary.

PERSONNEL (AI) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2019

No. Per(AP)AB(15)-4/2013.— The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the following officers shall retire from the Government service in the afternoon of the dates as shown against their names, on attaining the age of superannuation:—

Sl. No.	Name and Designation of the Officer	Date of retirement
1.	Shri Desh Raj Sharma, Director of Agriculture, H.P., Shimla.	30-09-2019
2.	Er. Satya Vrat Sharma, Chief Engineer(Dharmashala Zone), HPPWD, District Kangra, H.P.	30-09-2019
3.	Er. Ajay Kumar Garg, Chief Engineer(World Bank), HPRIDC, HPPWD, Shimla.	30-09-2019
4.	Er. J.S. Sodhi, Chief Engineer (Shimla Zone), I&PH Department, HP.	31-10-2019
5.	Shri Vipul Kumar, Director of Prosecution, H.P., Shimla	30-11-2019

By order,

B. K. AGARWAL,
Chief Secretary.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जून, 2019

संख्या: यू0 डी0-ए (3)-3/2015.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव करते हैं कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका गठित किए जाने के आशय से नगरपालिका क्षेत्र होंगे जिन्हें उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और समुन्नत व्यवस्था के लिए नगर पंचायत शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना है ;

उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के निवासियों के नगर पंचायत शाहपुर की प्रस्तावित घोषणा की बाबत, यदि कोई आक्षेप/सुझाव है/हैं, तो उन्हें ऐसे आक्षेपों/सुझावों को इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से, लिखित में, प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने होंगे;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप/सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात कोई आक्षेप/सुझाव, जो भी हो, ग्रहण नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना,
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

अनुसूची

क्र० सं०	मोहाल	पंचायत	कित्ता	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर
1.	शाहपुर	शाहपुर	1878	1 ता 1888 / 1806	138—67—81
2.	चन्दरूण	शाहपुर	744	1 ता 689 / 653	71—91—59
3.	झुलाड	कैरी	630	1 ता 645 / 590	62—98—68
4.	डोलयार	कैरी	554	1 ता 568 / 533	61—24—16
5.	मझयार	शाहपुर	733	1 ता 694	64—00—24
6.	हाडा	गोरड़ा	322	1 ता 295	17—51—70
7.	गोरड़ा	गोरड़ा	49	1209,1546,1210, 1547 / 1210, 1548/1210,1211,1212, 1549/1213,1550/1213, 1214 to1217 1222 to1224, 1551/1252,1552/1252, 1477/1254,1503/1476, 1504/1476,1229,1230, 1518/1288/1261, 1519/1288/1261, 1520/1288/1261, 1287/1261,1248/1232, 1247/1232,1259/1233, 1258/1233,1501/1241, 1502/1241,1553/1242, 1554/1242,1243, 1507/1485,1508/1485, 1482/1257,1483/1257, 1484/1257/1478/1257, 1479/1257,1505/1480, 1521/1506/480, 1522/1506/480, 481/1257,1245,1246	06—68—27
कुल क्षेत्र . .					423—02—45 हैक्टेयर

[Authoritative English text of the Department Notification No. UD-A(3)-3/2015, dated 07-06-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th June, 2019

No. UD-A(3)-3/2015.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to propose that the areas specified in the enclosed Schedule shall be municipal area in order to constitute a Municipality under sub-section (2) of section 3 of the Act *ibid*, to be classified as Nagar Panchayat,

Shahpur, District Kangra, Himachal Pradesh for the better development and improved arrangement in the said area;

The inhabitants of the area specified in the said Schedule are hereby called upon to submit their objection(s)/suggestion(s), if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat Shahpur and such objections/suggestions should be submitted to the Pr. Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh in writing through the Deputy Commissioner, Kangra within a period of six weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh ;

The objection(s)/suggestion(s), if any, received within above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government and after the expiry of above stipulated period, no objection(s)/suggestion(s), whatsoever , shall be entertained.

By order,

PRABODH SAXENA,
Pr. Secretary (U.D.).

“Schedule”

Sl. No.	Mohal	Panchayat	Kita.	Khasra No.	Area in Hectare
1.	Shahpur	Shahpur	1878	1 to 1888/1806	138-67-81
2.	Chandroon	Shahpur	744	1 to 689/653	71-91- 59
3.	Jhullar	Kairi	630	1 to 645/590	62-98-68
4.	Dolyar	Kairi	554	1 to 568/533	61-24-16
5.	Majhiar	Shahpur	733	1 to 694	64-00-24
6.	Hara	Gorda	322	1 to 295	17-51-70
7.	Gorda	Gorda	49	1209,1546/1210,1547/1210, 1548/1210,1211,1212, 1549/1213,1550/1213, 1214 to1217 1222 to1224, 1551/1252,1552/1252, 1477/1254,1503/1476, 1504/1476,1229,1230, 1518/1288/1261, 1519/1288/1261, 1520/1288/1261,1287/1261, 1248/1232,1247/1232, 1259/1233,1258/1233, 1501/1241,1502/1241, 1553/1242,1554/1242,1243, 1507/1485,1508/1485, 1482/1257,1483/1257,	06-68-27

				1484/1257,1478/1257, 1479/1257,1505/1480, 1521/1506/480, 1522/1506/480, 481/1257,1245,1246	
Total Area . .					423-02-45 Hectare

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, 14th June, 2019*

No. AHY-A (1)-4/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the up-gradation of following Veterinary Dispensaries to that of Veterinary Hospitals with immediate effect in public interest alongwith creation and filling up of one post of Veterinary Officer, one post of Animal Husbandry Assistant and one post of Animal Husbandry Attendant for each Veterinary Hospital:

1. Veterinary Dispensary Jhungi, Distt. Mandi
2. Veterinary Dispensary Salvahan (Hatgarah), Distt. Mandi

The posts of Veterinary Officer will be filled up on contract basis and the post of Animal Husbandry Attendant will be filled up on daily wages basis whereas the post of Animal Husbandry Assistant will be filled up by promotion. The expenditure involved will be debitable to Major Head 2403-Animal Husbandry, 101-Veterinary Services and Animal Health, 01-SOON-Hospital & Dispensaries (Non-Plan) under Demand No. 14 during the year 2019-20.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (AH).

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०

मिसल नं० : 08/ई०एम०/2018

तारीख पेशी : 18-06-2019

श्रीमती सुरेश कौर पत्नी श्री मंगल सिंह पुत्र श्री मुंशी, गांव व डाकघर इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि० प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र नाम दरुस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत अराजी खाता नं० 233, 234, 240, 242, 243, 519 जमाबन्दी साल 2012-13 वाक्या महाल व मौजा इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी श्रीमती सुरेश कौर पत्नी श्री मंगल सिंह पुत्र श्री मुंशी, गांव व डाकघर इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि की वाहिद मालिक है और मौका पर काश्त करती है लेकिन कागजात माल में उसके पति का नाम राज सिंह पुत्र श्री मुंशी पुत्र श्री दुलो, गांव व डाकघर इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 गलत दर्ज कर दिया गया है, जो कि गलत है। जबकि उसका वास्तविक नाम श्री मंगल सिंह पुत्र श्री मुंशी पुत्र श्री दुलो, गांव व डाकघर इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 है। जिसकी दुरुस्ती करके खाना मलकीयत में प्रार्थी के पति का सही नाम श्री मंगल सिंह पुत्र श्री मुंशी पुत्र श्री दुलो किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में खाना मलकीयत में नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-06-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवे अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-6-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री संजय कुमार (हि0प्र0से0) विवाह पंजीकरण अधिकारी, धीरा, उप-मण्डल धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. प्रदीप जम्बाल आयु 30 वर्ष पुत्र गौतम सिंह, निवासी गांव थुरल खास, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

2. तनुजा आयु 25 वर्ष पुत्री प्रभात सिंह, निवासी मकान नं0 853/22, सैक्टर नं0 10-ए, शिवाजी नगर, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन-122001

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 22-06-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 14-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
धीरा, उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।